



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235212  
CG-DL-E-19042022-235212

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]  
No. 285]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 299(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in); पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित)में, नियम 11 में,-

(क) उप-नियम (1) में, खंड (ड) विलोपित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ड) ईंधन कुशल चालन तकनीक का ज्ञान और समझ;"

3. उक्त नियमों में, नियम 14 में,-

(क) खंड "(च) नियम 31अ के अनुसार फॉर्म 5ख में मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से प्रमाण पत्र, यदि कोई हो", विलोपित किया जाएगा,

(ख) उप-नियम (1) में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ज) नियम 31अ के अनुसार फॉर्म 5ख में मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से प्रमाण पत्र, यदि कोई हो;"

4. उक्त नियमों में, नियम 31ग में, "नवीनीकृत किया जा सकता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

", एक बार में पांच साल की अवधि के लिए,"।

5. उक्त नियमों के नियम 31ज, में उपनियम (1) के तहत, निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"घ. दोपहिया चालन**

अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि में 20 सत्र है। इसे दो खंडों, विधा और प्रायोगिक में कवर किया जाएगा।

विधा के विषय	सत्र
चालन की विधा	1
यातायात शिक्षा	1
बुनियादी वाहन इंजीनियरिंग	1
प्राथमिक उपचार और गोल्डन आवर	1
जनसंपर्क, सड़क शिष्टाचार और रोड रेज	1
दुर्घटनाओं के कारण और केस स्टडी	1
ईंधन दक्षता और प्रदूषण	1

प्रायोगिक: 13 सत्र

विषय	सत्र
चालन रेंज में बुनियादी चालन अभ्यास	2
चालन रेंज में कौशल चालन अभ्यास	2
चालन रेंज में रात्रि चालन	1
सार्वजनिक सड़क पर कम यातायात अभ्यास	2

सार्वजनिक सड़क पर एकल लेन अभ्यास	1
दो लेन, सार्वजनिक सड़क पर कोई डिवाइडर अभ्यास नहीं, ट्रैफिक सिग्नल और पैदल यात्री क्रॉसिंग होनी चाहिए	1
दो लेन, सार्वजनिक सड़क बिना डिवाइडर अभ्यास, ट्रैफिक सिग्नल और पैदल यात्री क्रॉसिंग होनी चाहिए	1
किसी भी प्रकार के लेन पर डिवाइडर के साथ सड़क पर अभ्यास, परन्तु ट्रैफिक सिग्नल और पैदल यात्री क्रॉसिंग आवश्यक रूप से होनी चाहिए	1
स्टेपनी द्वारा पंकचर टायर का प्रतिस्थापन, मामूली मरम्मत और जाँच	2

### 1. चालन की विधा

1.	ऑटोमोबाइल और सड़कें, ऑटोमोबाइल के प्रकार
2.	दोपहिया वाहन सवार के लिए जोखिम
3.	पीछे बैठने वाले सवार के लिए जोखिम
4.	बच्चे/बच्चों के लिए जोखिम
5.	अन्य दोपहिया सवारों से आपसी जोखिम
6.	गलत दिशा/बीआरटी/हाई स्पीड लेन में गाड़ी चलाने का जोखिम
7.	बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने में खतरा
8.	वाहन की जाँच: टायर, लाइट, सीट, ब्रेक, दस्तावेज़, ईंधन

### 2. यातायात शिक्षा

1.	सड़क उपयोग के व्यवस्थापन यानि सड़क के नियम
2.	यातायात संकेत
3.	सड़क के संकेत और चिह्न
4.	पार्किंग सुरक्षा: साइड स्टैंड, मुख्य स्टैंड
5.	ट्रैफिक में शामिल होना और बाहर निकलना
6.	रुकना और ढलान पर जाना
7.	अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए विचारण

### 3. बुनियादी वाहन इंजीनियरिंग

1.	वाहन के पुर्जे
2.	वाहन क्षमता: विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा सामग्री की ढुलाई क्यों नहीं।
3.	टैंकों में ईंधन सुरक्षा
4.	गियरलेस/क्लचलेस डिज़ाइन और गियर/क्लच डिज़ाइन
5.	वाहन का संतुलन
6.	हेडलाइट सेटिंग और बीम्स

7.	पश्च दृष्टि दर्पण: दृश्य क्षेत्र और दिखाई न देने वाला क्षेत्र
8.	आगे का ब्रेक, पीछे का ब्रेक, संयुक्त ब्रेक
9.	इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सूचना का उपयोग

4. प्राथमिक उपचार और गोल्डन आवर	
1.	जान गंवाना
2.	बिगड़ती स्थिति
3.	एम्बुलेंस बुलाना
4.	वाहन के नंबर नोट करना
5.	प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी
6.	रक्त स्राव को रोकना

5. जनसंपर्क, सड़क शिष्टाचार और रोड रेज	
1.	शांति रखना
2.	आक्रामक वाहन चालकों से सावधान रहना
3.	दूसरों को सिखाने की कोशिश ना करना
4.	भाषा पर नियंत्रण
5.	सॉरी शब्द का महत्व
6.	व्यसन और शराब का सेवन करना

6. दुर्घटनाओं के कारण, केस स्टडी	
1.	जोखिम प्रोफाइल
2.	हादसे क्यों हो रहे हैं
3.	वाहन वर्ग का हिस्सा
4.	बुनियादी रक्षात्मक तकनीकें
5.	गति नियंत्रण पर जोर

7. ईंधन दक्षता और प्रदूषण नियंत्रण	
1.	समय की मांग
2.	निष्क्रिय समय
3.	गियर का चयन
4.	समय पर सर्विसिंग

**8. व्यावहारिक: चालन रेंज पर**

1.	बैठने की मुद्रा, हेलमेट, दस्तावेज
2.	समायोजन
3.	8 और ग्रेडिंट
4.	दोपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए लेन
5.	बेंड
6.	रात्रि चालन
7.	ट्रैफिक में शामिल होना और ट्रैफिक से बाहर निकलना
8.	ब्रेक लगाने की तकनीक
9.	ब्रेक लगाने की स्थिरता
10.	पंचर टायर की मामूली मरम्मत, जांच और प्रतिस्थापन

**9. सार्वजनिक सड़कों पर प्रैक्टिकल**

1.	प्रेक्षण मिरर
2.	पीछे चलने की दूरी
3.	आवारा जानवरों पर नजर
4.	सुचारू रूप से ब्रेक लगाना
5.	एबीएस के साथ ब्रेक लगाना
6.	एबीएस के बिना ब्रेक लगाना
7.	रात्रि चालन
8.	सड़क की स्थिति
9.	बड़े वाहनों से खतरा
10.	गलत साइड चालन से मौके पर हतोत्साहित करना
11.	दिखाई न देने वाले कोने
12.	मुड़ने से पहले सिग्नल देना
13.	अन्य वाहनों की स्थिति निर्धारित करना
14.	कहाँ रुकें और पार्क करें
15.	नियंत्रण बनाए रखना"।

6. उक्त नियमों के नियम 31अ में, खंड (6) में, शब्दों "मोटर वाहन निरीक्षक का परीक्षण" के स्थान पर शब्दों, "ड्राइव करने की क्षमता का परीक्षण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, नियम 32, की सारणी में,

(क) निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा: -

क्र.सं.	उद्देश्य	धनराशि	नियम	खंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	चालन में निर्देश देने के लिए एक चालक प्रशिक्षण केंद्र को मान्यता जारी करना।	पचास हजार	31(ख)	12
15.	चालन में निर्देश देने वाले चालक प्रशिक्षण केंद्र को डुप्लीकेट मान्यता जारी करना।	पन्द्रह हजार	31(घ)	12
16.	नियम 30 में विनिर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील के संबंध में।	बीस हजार	31(झ)	12

(ख) क्रम संख्या (14) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्र.सं.	उद्देश्य	धनराशि	नियम	खंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“15.	चालन में निर्देश देने के लिए एक चालक प्रशिक्षण केंद्र को मान्यता जारी करना।	पचास हजार	31(ख)	12
16.	चालन में निर्देश देने वाले चालक प्रशिक्षण केंद्र को डुप्लीकेट मान्यता जारी करना।	पन्द्रह हजार	31(घ)	12
17.	नियम 30 में विनिर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील के संबंध में।	बीस हजार	31(झ)	12”

[सं.आरटी-11036/137/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या.....(अ), दिनांकित .....द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

**G.S.R. 299(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

### Draft Rules

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (.... Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11, -

(a) in sub-rule (1), clause (e) shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) knowledge and understanding of fuel efficient driving technique;”.

3. In the said rules, in rule 14, -

(a) clause "(f) Certificate from accredited driver training Center in Form 5B as per rule 31E, if any", shall be omitted,

(b) in sub-rule (1), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -

“(h) Certificate from accredited driver training Center in Form 5B as per rule 31E, if any;”.

4. In the said rules, in rule 31C, after the words “may be renewed”, the following words shall be inserted, namely: -

“, for a period of five years at a time, ”.

5. In the said rules, in rule 31J, under sub-rule (1), the following clause shall be inserted, namely: -

### “D. Two Wheeler Driving

The duration is 20 sessions in a span of maximum 2 weeks. It will be covered in two segments, Theory and Practical.

THEORY: 7 sessions

Theory topics	Sessions
Driving theory	1
Traffic education	1
Basic vehicle engineering	1
First aid and Golden hour	1
Public relations, Road etiquette and road rage	1
Causes of accidents & case studies	1
Fuel efficiency and pollution	1

PRACTICAL: 13 Sessions

Topic	Sessions
Basic driving practice in Driving range	2
Skill driving practice in Driving range	2
Night driving in driving range	1
Low traffic practice on Public road	2
Single lane practice on public road	1
Two lane, no divider practice on public road, must have traffic signals and pedestrian crossings	1
Two lane, no divider practice on public road, must have traffic signals and pedestrian crossings	1
Practice on road with divider, irrespective of lane, but must have traffic signals and pedestrian crossings	1
Minor repairs and checks, replacement of flat tyre by Stepney	2

<b>1. DRIVING THEORY</b>	
1.	Automobile and roads, types of Automobiles
2.	Risks to two wheeler rider
3.	Risks to pillion rider
4.	Risks to child/ children
5.	Mutual risk from other two wheeler rider
6.	Risk in driving in wrong direction/ in BRT/ in high-speed lane
7.	Risk in driving two wheeler without wearing helmet.
8.	Check the vehicle: Tyres, lights, seat, brakes, documents, fuel

<b>2. TRAFFIC EDUCATION</b>	
1.	Road use regulations i.e. rules of the road
2.	Traffic signals
3.	Road signs and markings
4.	Parking safety: side stand, main stand
5.	Joining and leaving traffic
6.	Stop and go on incline
7.	Consideration to other road users

<b>3. BASIC VEHICLE ENGINEERING</b>	
1.	Parts of the vehicle
2.	Carrying capacity: why not to carry material apart from specified persons
3.	Fuel safety in tanks
4.	Gearless/ clutchless design and geared/ clutched design
5.	Balance of the vehicle
6.	Headlight setting and beams
7.	Rear view mirror: vision area and blind area
8.	Front brakes, rear brakes, combination brakes
9.	Instrument cluster and use of information



<b>4. FIRST AID and GOLDEN HOUR</b>	
1.	Loss of life
2.	Worsening of situation
3.	Call ambulance
4.	Note down vehicle numbers
5.	ABC of first aid
6.	Stopping blood loss

<b>5. PUBLIC RELATIONS, ROAD ETIQUETTES and ROAD RAGE</b>	
1.	Keep cool
2.	Be careful from aggressive drivers
3.	Not to try to teach others
4.	Control of language
5.	Importance of word SORRY
6.	Addiction and alcoholism

<b>6. CAUSES OF ACCIDENTS, CASE STUDIES</b>	
1.	Risk profile
2.	Why accidents are happening
3.	Share of vehicle class
4.	Basic defensive techniques
5.	Emphasis on speed control

<b>7. FUEL EFFICIENCY and POLLUTION CONTROL</b>	
1.	Need of the hour
2.	Idling time
3.	Gear selection
4.	Timely servicing

<b>8. PRACTICAL: ON DRIVING RANGE</b>	
1.	Seating posture, helmet, documents
2.	Adjustments
3.	8 and Gradient
4.	Lane for 2 wheeler, 4 wheeler
5.	Bends
6.	Night driving
7.	Joining traffic and leaving traffic
8.	Braking techniques
9.	Braking stability
10.	Minor repairs, checks and replacement of punctured tyre

<b>9. PRACTICAL ON PUBLIC ROADS</b>	
1.	Observing mirror
2.	Following distance
3.	Eye on stray animals
4.	Braking smoothly
5.	Braking with ABS
6.	Braking without ABS
7.	Night driving
8.	Road condition
9.	Risk from big vehicles
10.	Discouraging ON THE SPOT from wrong side driving
11.	Blind corners
12.	Signalling before turning
13.	Positioning wrt other vehicles
14.	Where to stop and park
15.	Maintaining control”.

6. In the said rules, in rule 31J, in clause (6), for the words “Motor Vehicle Inspector's Test”, the words “Test of competence to drive” shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 32, in the table,

(a) the following entries shall be omitted: -

Serial No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Issue of accreditation to a driver training center for imparting instructions in driving.	Fifty Thousand	31(B)	12
15.	Issue of duplicate accreditation to a driver training center imparting instructions in driving.	Fifteen Thousand	31(D)	12
16.	In respect of an appeal against the orders of licensing authority referred to in rule 30.	Twenty Thousand	31(I)	12

(b) after serial number (14) and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely: -

Serial No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“15.	Issue of accreditation to a driver training center for imparting instructions in driving.	Fifty Thousand	31(B)	12
16.	Issue of duplicate accreditation to a driver training center imparting instructions in driving.	Fifteen Thousand	31(D)	12
17.	In respect of an appeal against the orders of licensing authority referred to in rule 30.	Twenty Thousand	31(I)	12”

[No.RT-11036/137/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 590(E), dated the 02<sup>nd</sup> June, 1989 and last amended vide notification number .....(E), dated the .....